



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेल भर्ती बोर्ड



सीईएन-01/2019

(विभिन्न एनटीपीसी स्नातक और पूर्व-स्नातक पदों की भर्ती के लिए)

**कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) के लिए लघुसूचित किए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना**

1. स्तर 5, 3 और 2 के लिए द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) 12 जून, 2022 से 17 जून, 2022 तक आयोजित की गई थी।
2. वेतन स्तर 5 और 2 के लिए सीबीटी-2 का परिणाम 18 जुलाई, 2022 को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया था।
3. सीबीटी-2 में वेतन स्तर 5 और 2 के लघुसूचित किए गए अभ्यर्थियों के लिए सीबीटीएसटी को वर्तमान परिस्थितियों के अधीन 12-08-2022 से आयोजित किया जाना है।
4. सीबीटीएसटी के लिए लघुसूचित किए गए अभ्यर्थियों को संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से अंग्रेजी / हिंदी में टंकण भाषा के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर टंकण भाषा का चयन नहीं करता है, तो टंकण के लिए व्यतिक्रम भाषा अंग्रेजी होगी।
5. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे भाषा का विकल्प सावधानीपूर्वक चुनें। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में इसे बदला नहीं जा सकता है। इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. टंकण भाषा विकल्प का प्रयोग करने के लिए लिंक संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। लिंक 25.07.2022 को 18.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
8. उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है।

दिनांक: 19.07.2022

अध्यक्ष  
रेल भर्ती बोर्ड